

## यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स कृत

टी.जी.टी./पी.जी.टी./एल.टी. ग्रेड/जी.आई.सी./डायट/डीएसएसएसबी/ आरपीएससी/केवीएस/एनवीएस/  
झारखंड टीजीटी/राजस्थान स्कूल/कालेज लेक्चरर/डिग्री कालेज परीक्षा/यू.जी.सी./असिस्टेंट प्रोफेसर  
(TGT/PGT/LT Grade/GIC/DIET/DSSSB/RPSC/KVS/NVS/ Jharkhand TGT/ Rajasthan  
School/College Lecturer/ Degree College Exam/UGC/Assistant Professor)

# वाणिज्य परीक्षा प्वाइंटर

### प्रधान सम्पादक

आनन्द कुमार महाजन

### संपादन एवं संकलन

यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स परीक्षा विशेषज्ञ समिति

### कम्प्यूटर ग्राफिक्स

बालकृष्ण, चरन सिंह

### सम्पादकीय कार्यालय

यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स

12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002

फोन : 9415650134

Email : yctap12@gmail.com

Website : www.yctbooks.com

### प्रकाशन घोषणा

प्रधान सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने रूप प्रिंटिंग प्रेस, प्रयागराज से मुद्रित करवाकर,  
यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स, 12, चर्च लेन, प्रयागराज के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है  
फिर भी किसी त्रुटि के लिए आपका सुझाव सादर आमंत्रित है।

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

मूल्य : 395/-

# विषय-सूची

■ टी.जी.टी. एवं पी.जी.टी. परीक्षा पाठ्यक्रम .....	5-6
■ <b>Unit-I : लेखांकन (Accountancy).....</b>	<b>7-55</b>
□ अर्थ, उद्देश्य, तकनीक एवं मानक (Meaning, Object, Technique and Standards) .....	7
□ सिद्धान्त, अवधारणाएँ एवं मान्यताएँ (Principles, Concept and Assumptions) .....	10
□ दोहरा लेखा प्रणाली (Double Entry System).....	14
□ जर्नल (Journal).....	16
□ लेजर (Ledger).....	18
□ तलपट (Trial Balance).....	19
□ समायोजन प्रविष्टियों सहित अन्तिम खाते (Final Accounts with Adjustment Entries) .....	20
□ साझेदारी (Partnership).....	25
◆ प्रवेश (Admission).....	26
◆ अवकाश ग्रहण, मृत्यु, दिवालिया एवं विघटन (Retirement, Death, Insolvency and Dissolution).....	28
□ कम्पनी लेखे (Company Accounts).....	33
◆ अंशों के निर्गमन एवं प्रकार (Issue and Types of Shares).....	33
◆ अंशों का हरण, शोधन एवं पुनर्निर्गमन (Forfeiture, Redemption and Re-issue of Share).....	37
◆ ऋण-पत्रों का निर्गमन एवं शोधन (Issue and Redemption of Debentures) .....	42
□ गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे (Accounts of Non-profit Organization).....	44
□ अधिकार शुल्क खाते (Royalty A/c).....	46
□ किराया क्रय पद्धति (Hire Purchase System) .....	46
□ किश्त भुगतान पद्धति (Instalment Payment Method) .....	47
□ विभागीय खाते (Departmental Accounts) .....	47
□ हास की विधियाँ (Methods of Depreciation) .....	47
□ ख्याति का मूल्यांकन (Valuation of Goodwill).....	49
□ अंशों का मूल्यांकन (Valuation of Shares).....	49
□ पूँजीगत एवं आयगत लाभ तथा हानि, गुप्त संचय एवं आस्थगित आयगत व्यय (Capital and Revenue Profit and Loss, Secret Reserves and Differed Revenue Expenses)	50
□ साममेलन के पूर्व लाभ एवं हानि (Profit and loss before Incorporation) .....	53
□ विविध (Miscellaneous) .....	53
■ <b>Unit-II : व्यावसायिक संगठन (Business Organisation) .....</b>	<b>56-72</b>
□ व्यवसाय का अर्थ, उद्देश्य, क्षेत्र, प्रकृति एवं स्वरूप (Meaning, Object, Scope, Nature and Form of Business) .....	56
□ व्यवसायिक संगठन के स्वरूप (Types of Business Organisation) .....	58
◆ एकाकी व्यापारिक (Sole Trader).....	58
◆ साझेदारी (Partnership) .....	59
◆ कम्पनी (Company).....	61
◆ संयुक्त स्कन्ध कम्पनी (Joint Stock Company).....	64
◆ सहकारी समितियाँ (Co-operative Samiti) .....	64
◆ संयुक्त हिन्दू परिवार (Joint Hindu Family).....	65
□ राष्ट्रीय एवं विदेशी व्यापार (National and Foreign Trades) .....	65
□ पर्यावरण प्रदूषण एवं उद्योग धन्धे (Environment Pollution and Industries).....	70
□ विविध-फाइलिंग, वर्गीकरण इत्यादि (Miscellaneous Filing, Classification etc.).....	71
■ <b>Unit-III : प्रबन्ध के सिद्धान्त (Principles of Management).....</b>	<b>73-95</b>
□ प्रकृति, क्षेत्र एवं सिद्धान्त (Nature, Scope and Principles).....	73
□ एफ.डब्ल्यू. टेलर एवं हेनरी फेयोल का योगदान (Contribution of F.W. Taylor and Henry Fayol) .....	76
□ प्रबन्ध के कार्य (Function of Management).....	79
◆ नियोजन (Planning).....	79
◆ संगठन (Organisation).....	81
◆ स्टाफिंग (Staffing) .....	83
◆ निर्देशन (Direction).....	83
◆ नियन्त्रण (Controlling) .....	84
◆ समन्वय (Co-ordination).....	85

◆ अभिप्रेरणा (Motivation).....	86
◆ निर्णयन (Decision) .....	88
◆ सम्प्रेषण (Communication).....	88
◆ नेतृत्व (Leadership).....	89
◆ बजटिंग (Budgeting) .....	90
□ विविध (Miscellaneous).....	91
<b>■ Unit-IV : विपणन (Marketing) .....</b>	<b>96-101</b>
□ विपणन की प्रकृति, कार्य, क्षेत्र एवं स्वरूप (Nature, Function, Scope and Forms of Marketing).....	96
□ विविध (Miscellaneous).....	99
<b>■ Unit-V : व्यावसायिक अर्थशास्त्र (Business Economics).....</b>	<b>102-123</b>
□ अवधारणा, क्षेत्र, महत्व, उद्देश्य एवं अन्य विषयों से सम्बन्ध (Concept, Scope, Importance, Object and Relation to other subject).....	102
□ माँग वक्र नियम एवं विश्लेषण (Rules of Demand Curve and Analysis).....	103
□ माँग की लोच (Elasticity of Demand) .....	105
□ सीमान्त उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम, लागत विश्लेषण एवं लागत के प्रकार (Marginal Utility, Total utility, Marginal Utility Diminishing Rules, Cost Analysis and Type of Cost)	108
□ उत्पादन के नियम एवं साधन (Rules of Production and Factors) .....	111
□ पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण (Price determination under Perfect competition and monopoly).....	112
□ व्यापार चक्र (Trade Cycle).....	115
□ जनसंख्या का सिद्धान्त (Principles of Population).....	115
□ भारतीय अर्थव्यवस्था - स्थिति, समस्या एवं सुझाव, तथा बजट व इसका महत्व..... (Indian Economy- Situation, Problems and Suggestion, Budget and its Importance)	116
□ पूँजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था (Capitalistic, Socialistic and Mixed Economy).....	119
□ राजस्व (Public Finance).....	120
□ विविध (Miscellaneous).....	121
<b>■ Unit-VI : मुद्रा एवं बैंकिंग (Money &amp; Banking).....</b>	<b>124-136</b>
□ मुद्रा की परिभाषा, क्षेत्र, कार्य एवं प्रकृति (Definition, Scope, Function and Nature of Money) .....	124
□ पूँजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व (Importance of Money in Capitalistic and Socialistic Economy).....	125
□ ग्रेशम का नियम (Grasham's Law) .....	125
□ मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money).....	125
□ मुद्रा स्फीति एवं मुद्रा संकुचन (Inflation and Deflation) .....	125
□ बैंकों के प्रकार (Types of Banks).....	126
□ वाणिज्यिक बैंक एवं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कार्य (Functions of Commercial Bank and Reserve Bank of India).....	126
□ विभिन्न बैंकिंग एवं व्यापारिक संस्थाएँ (Various Banking and Trade Institutions).....	129
□ विविध (Miscellaneous).....	134
<b>■ Unit-VII : सांख्यिकी (Statistics).....</b>	<b>137-150</b>
□ अर्थ, क्षेत्र, महत्व, कार्य, विशेषताएँ, प्रकृति एवं सीमाएँ (Meaning, Scope, Importance, Function, Characteristics, Nature and Limitation) .....	137
□ आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, विश्लेषण, एवं सारणीयन (Collection, Classification, Analysis and Tabulation of Data).....	138
□ केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप- माध्य, माध्यिका व बहुलक, हरात्मक माध्य एवं ज्यामितीय माध्य (Measures of Central Tendency-Mean, Median, Mode, Harmonic Mean and Geometric Mean) .....	142
□ अपकिरण की माप (Measures of Dispersion).....	144
□ सहसम्बन्ध एवं प्रतीपगन (Co-relation and Regression).....	145
□ गुणात्मक सम्बन्ध एवं कालमाला विश्लेषण (Association of Attributes and Time Series Analysis) .....	148
□ निर्देशांक (Index).....	148
□ विविध (Miscellaneous).....	148
<b>■ Unit-VIII : अंकेक्षण (Auditing) .....</b>	<b>151-160</b>
□ अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र, प्रकार (Meaning, Definition, Scope and Types) .....	151
□ अंकेक्षण के उद्देश्य, महत्व एवं सीमाएँ (Object, Importance and Limitations) .....	154
□ प्रमाणन का अर्थ तथा इसके प्रकार एवं महत्व (Meaning of Vouching and its Types and Importance) .....	156
□ प्रारम्भिक लेखा पुस्तकों का प्रमाणन एवं विधियाँ (Vouching of Preliminary Accounting Books and its Methods) .....	157
□ विविध (Miscellaneous).....	157

■ <b>Unit-IX : लागत लेखांकन (Cost Accounting)</b> .....	<b>161-166</b>
□ अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, महत्व एवं विशेषताएँ (Meaning, Scope, Nature, Importance and Characteristics).....	161
□ लागतों का वर्गीकरण (Classification of Cost).....	162
□ लागत पत्र विश्लेषण (Analysis of Cost Sheet).....	163
□ टेका लागत विधि (Contract Cost Method).....	164
□ विविध (Miscellaneous).....	165
□ रहतिया का मूल्यांकन (Valuation of Stock).....	165
■ <b>Unit-X : आयकर (Income Tax)</b> .....	<b>167-175</b>
□ आशय, महत्व एवं विभिन्न शब्दालियाँ (Meaning, Importance and its various Terms).....	167
□ कृषि आय (Agriculture Income).....	168
□ निवास स्थान एवं कर दायित्व (Residential Status and Tax-Liabilities).....	169
□ विभिन्न स्रोतों से आय की गणना (Calculation of Incomes from Various Source).....	171
□ कटौतियाँ (धारा 80-C से 80U) तक (Deductions u/s 80C to 80U).....	172
□ विविध (Miscellaneous).....	174
■ <b>Unit-XI : भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 (Indian Companies Acts, 2013)</b> .....	<b>176-190</b>
□ अर्थ, परिभाषा, महत्व, प्रकृति एवं क्षेत्र (Meaning, Definition, Importance, Nature and Scope).....	176
□ कम्पनी का गठन, समामेलन एवं सभाएँ (Formation of Company, Registration and Meeting).....	177
□ पार्षद सीमानियम (Memorandum of Association).....	181
□ पार्षद अन्तर्नियम (Article of Association).....	182
□ प्रविवरण (Prospectus).....	183
□ कम्पनी का प्रबन्ध – संचालक मण्डल (Company Management - Board of Directors).....	183
□ प्रबन्धकों का पारिश्रमिक निर्धारण (Determination of Managers Remuneration).....	185
□ लाभांश (Dividend).....	186
□ रचनात्मक सूचना का सिद्धान्त (Constructive Information Principle).....	187
□ आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त (Theory of Internal Management).....	187
□ विविध (Miscellaneous).....	188
■ <b>Unit-XII : मानव संसाधन प्रबन्ध (Human Resource Management)</b> .....	<b>191-195</b>
□ अर्थ, महत्व एवं क्षेत्र (Meaning, Importance and Scope).....	191
□ विभिन्न कार्य (Various Functions).....	192
□ विविध (Miscellaneous).....	195
■ <b>Unit-XIII : बीमा (Insurance)</b> .....	<b>196-199</b>
□ अर्थ, क्षेत्र एवं विशेषताएँ (Meaning, Scope and Characteristics).....	196
□ जीवन बीमा (Life Insurance).....	196
□ अग्नि बीमा (Fire Insurance).....	197
□ समुद्री बीमा (Marine Insurance).....	197
□ विविध (Miscellaneous).....	198
■ <b>Unit-XIV : प्रबन्धकीय लेखांकन (Management Accounting)</b> .....	<b>200-212</b>
□ अर्थ, महत्व, क्षेत्र, विशेषताएं व सीमाएं (Meaning, Importance, Scope, Characteristics and Limitations).....	200
□ अनुपात विश्लेषण (Ratio Analysis).....	201
□ सम-विच्छेद बिन्दु विश्लेषण (B.E.P. Analysis).....	206
□ रोकड़ प्रवाह विवरण (Cash-Flow Statements).....	208
□ कोष प्रवाह विवरण (Fund-flow Statements).....	209
□ विविध (Miscellaneous).....	212
■ <b>Unit-XV : विविध (Miscellaneous)</b> .....	<b>213-224</b>
□ भारतीय प्रतिभूति एवं स्क्ंध बाजार (Indian Securities and Stock Market).....	214
□ पूँजी बजटन (Capital Budgeting).....	217
□ व्यवसायिक संयोजन (Business Combination).....	219
□ विभिन्न सहायक यन्त्र (Various Helpful Instrument in Business).....	220
□ कार्यालय प्रबन्ध (Office Management).....	223

# प्रशिक्षित स्नातक वाणिज्य

## पाठ्यक्रम

### (TGT Commerce : Syllabus)

---

एकाउण्ट्स सांख्यिकी एवं अंकेक्षण-एकाउण्ट्स-पुस्तपालन का अर्थ उद्देश्य एवं विधियाँ, दोहरा लेखा प्रणाली, रोजनामचा, खाताबही तथा तलपट, समायोजन प्रविष्टियों के साथ अन्तिम लेखे तैयार करना, साझेदारी खाते, कम्पनी लेखे, अंशों का निर्गमन एवं हरण और व्यापारिक संस्थाओं के लेखे अधिकार शुल्क लेखे, किराया-क्रय खाता तथा प्रभाग क्रय संबंधी लेखे सांख्यिकीय माध्य संगणिकी का अर्थ क्षेत्र, महत्व एवं सीमायें आंकड़ों का संग्रह वर्गीकरण एवं सारणीयन सारिणयकीय अपकिरण, अंकेक्षण परिभाषा उद्देश्य, महत्व, प्रमाणन का अर्थ, महत्व, प्रमाणन के प्रकार प्रारम्भिक लेखे की पुस्तकों का प्रमाणन।

व्यापारिक संगठन एवं प्रबंध व्यापारिक संगठन व्यापार एवं सभ्यता का संबंध, व्यवसायिक संगठन का अर्थ एवं क्षेत्र, पर्यावरण प्रदूषण तथा उद्योग धन्धे, व्यापारिक कार्यालय के कार्य, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, विज्ञापन एवं विक्रय कला देशी व्यापार एवं विदेशी व्यापार, प्रबन्ध-प्रबन्ध की प्रकृति एवं महत्व, प्रबन्ध की विभिन्न विचारधारायें प्रबन्धकीय कार्य, नियोजन, स्टाफिंग अभिप्रेरणा, समन्वय एवं नियंत्रण। अर्थशास्त्र, मुद्रा, बैंकिंग एवं भारतीय अर्थ व्यवस्था-अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र उपभोग सीमान्त एवं कुल उपयोगिता, सीमान्त उपयोगिता द्वारा नियम, मांग तथा मांग की लोच उत्पादन के साधन, उत्पत्ति के नियम, जनसंख्या के सिद्धान्त, विनिमय-बाजार के प्रकार, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण। वितरण, वितरण के सिद्धान्त सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त, मुद्रा की परिभाषा, क्षेत्र एवं कार्य, पूंजीवाद एवं समाजवादी अर्थ व्यवस्था में मुद्रा का महत्व ग्रेशम का नियम मुद्रा का परिणाम सिद्धान्त, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, बैंकिंग के कार्य एवं प्रकार, वाणिज्यिक बैंक के सिद्धान्त रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का कार्य, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषतायें जनसंख्या की समस्या, कृषि की समस्या, विदेशी व्यापार संबंधी समस्या।

# प्रवक्ता वाणिज्य

## पाठ्यक्रम

### (PGT Commerce : Syllabus)

---

#### खण्ड-अ

**एकाउन्ट्स : वित्तीय लेखांकन-** दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धान्त, समायोजन प्रविष्टियों के साथ अन्तिम लेखे तैयार करना, साझेदारी खाते, कम्पनी लेखे, अंशों एवं ऋणपत्रों का निर्गमन, अंशहरण एवं ऋणपत्रों का शोधन, लागत लेखांकन- लागत रेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, लागत के तत्व, लागत लेखांकन की विधियाँ-इकाई लागत लेखांकन, ठेका लागत, लेखांकन, कर लेखांकन- महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा- कृषि आय, करदाता गतवर्ष एवं कर निर्धारण वर्ष, निवास स्थान एवं कर दायित्व, प्रबन्धकीय लेखांकन- अर्थ, महत्व क्षेत्र, कार्य एवं उद्देश्य, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय लेखांकन में अन्तर, व्यवसायिक पूर्वानुमान (प्रबन्ध के लिये उपयोगिता आधारभूत आंकड़ों के स्रोत), विश्लेषण एवं स्रोत, पूर्वानुमान के यन्त्र, व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धान्त, प्रबन्धकीय प्रतिवेदन, अनुपात विश्लेषण, सम-विच्छेद विश्लेषण।

#### खण्ड-ब

**व्यावसायिक संगठन एवं प्रबन्ध-** व्यावसायिक संगठन एवं क्षेत्र, पर्यावरण प्रदूषण एवं उद्योग-धन्धे, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, देशी एवं विदेशी व्यापार, प्रबन्ध-प्रबन्ध की प्रकृति एवं कार्य, प्रबन्ध की विभिन्न विचारधारारयें, प्रबन्ध विचार में प्रमुख विचारकों के योगदानों का विश्लेषण -एफ. डब्लू टेलर, हेनरी फेयोल एल्टन मेयों, पेशों के रूप में प्रबन्ध, प्रबन्धकीय कार्य-नियोजन, स्टाफिंग-अभिप्रेरणा, समन्वय एवं नियंत्रण।

#### खण्ड-स

**उच्च आर्थिक सिद्धान्त एवं सांख्यिकीय रीतियाँ : उच्च आर्थिक सिद्धान्त-** अर्थशास्त्र स्वरूप एवं क्षेत्र, व्यापार एवं अर्थशास्त्र का सम्बन्ध, तटस्थता वक्र विश्लेषण, उत्पत्ति के नियम, उत्पादन, प्रकार्य, जनसंख्या सिद्धान्त, प्रधान एवं पूरक लागत, औसत और सीमान्त लागत, व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय, सांख्यिकीय रीतियाँ - आवृत्ति वितरण का विश्लेषण, सह-सम्बन्ध एवं प्रतीगमन, गुणात्मक सम्बन्ध, कालमाला का विश्लेषण, निर्देशांक, व्यापारिक पूर्वानुमान, सैद्धान्तिक बारम्बारता बंटन, बारम्बारता सामान्य बंटन, द्विपद एवं वायसन, भारतीय सांख्यिकी विशेष रूप से जनसंख्या के संदर्भ में, कृषि समंक एवं औद्योगिक समंक, भारतीय सांख्यिकी की कमियाँ एवं सुधार के सुझाव।

# Unit-I

## लेखांकन

### (Accountancy)

#### 1. अर्थ, उद्देश्य, तकनीक एवं मानक (Meaning, Object, Technique and Standards)

- Which accounting standard is used for depreciation accounting— **AS-6**  
हास लेखांकन के लिए, लेखांकन प्रमाप का प्रयोग किया जाता है— **लेखांकन प्रमाप-6**  
**UP PGT 2021**
- Pre-fix of "CS" of members of the institute has been granted by ICSI on— **June, 23-24, 2007**  
संस्थान के सदस्यों का "CS" उपसर्ग ICSI द्वारा ..... को दिया गया था— **23-24 जून, 2007**  
**CGPSC Asst. Prof. 2014**
- Accounting principles differentiates between owner and management—  
**Separate legal Business Entity concept**  
लेखांकन सिद्धांत स्वामी एवं प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है— **व्यावसायिक अस्तित्व**  
**MPPSC Asst. Prof. 2017**
- Accounting standards in India are issued by—  
**The Institute of Chartered Accountants of India**  
भारत में लेखांकन मानक जारी किये जाते हैं—  
**भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान**  
**MPPSC Asst. Prof. 2017**
- Accounting standard-19 (AS-19) relates to—  
**Leases**  
लेखांकन प्रमाप-19 का संबंध है— **पट्टे से**  
**MPPSC Asst. Prof. 2017**
- Assessment year starts from— **1 April**  
कर निर्धारण वर्ष शुरु होता है— **1 अप्रैल से**  
**HPPSC PGT 2016**
- Accounting Standard-6 is meant for—  
**Depreciation Accounting**  
लेखांकन मानक-6 बनाया गया है— **हास लेखांकन के लिए**  
**UGC NET Exam (Paper III) July 2016**
- Preparation of consolidated statement of accounts as per AS - 21 is—  
**Mandatory for Listed Companies in stock Exchange**  
ए एस-21 के अनुसार समेकित लेखा विवरण तैयार करना होता है— **सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए अनिवार्य**  
**UGC NET Exam (Paper III) June 2015**
- Which items would be specifically included in the statement of cash flows constructed in compliance with AS-3— **Operating and non-operating cash flow information**  
कौन सी मदें, AS-3 के अनुपालन में तैयार किये रोकड़ प्रवाह के विवरण में विशेष रूप से समाविष्ट होती हैं—  
**प्रचालन एवं गैर-प्रचालन नकद प्रवाह सूचना**  
**UGC NET Exam (Paper III) June 2014**
- True regarding the Prudence Principle of Accounting—  
**Future losses should be taken into account**  
लेखांकन के दूरदर्शिता सिद्धांत के सम्बन्ध में सत्य है—  
**भावी हानियों को ध्यान में लेना।**  
**UGC NET Exam (Paper II) Dec 2013**
- In India, prepared on the guidelines of AS-3 (Accounting Standard - 3)— **Cash Flow Statement**  
भारत में, ए.एस.-3 (लेखांकन मानक-3) के मार्गदर्शन पर तैयार किया गया है— **नकद प्रवाह विवरण**  
**UGC NET Exam (Paper III) June 2012**
- Accounting Standards Board of India was established in the year— **1977**  
भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई—  
**1977**  
**UGC NET Exam (Paper II) June 2011**
- "Book keeping is an art of recording of business and other transactions in monetary terms." This definition has been given by— **Spicer and Pegler**  
"पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है।" यह परिभाषा दी गयी है—  
**स्पाइसर तथा पेगलर द्वारा**  
**TGT 2011**
- "Double entry system is that system of book keeping where accounting is done through personal and impersonal accounts." This definition was given by— **R.N. Carter**  
"दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें वैयक्तिक तथा अवैयक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है।" यह परिभाषा दी गयी है—  
**आर. एन. कार्टर के द्वारा**  
**TGT 2011**
- Accounting starts where book keeping ends and ..... begins where accounting ends— **Auditing**  
पुस्तपालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ से लेखाकर्म का कार्य प्रारम्भ होता है, जहाँ पर लेखाकर्म का कार्य समाप्त होता है, वहाँ से .... कार्य प्रारम्भ होता है— **अंकेक्षण**  
**TGT 2011**



- Chartered Accountants are— **Professional Auditor**  
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट होते हैं— **पेशेवर अंकेक्षक**  
TGT 2013
- The items which increases the owner's capital as a result of business transactions are called—  
**Income**  
व्यवसायिक व्यवहारों के परिणामस्वरूप मालिक की पूँजी में जिस मदों की वृद्धि होती है वह कहलाती है— **आय**  
TGT 2010
- The final stage of accounting as a process of information— **Communication of information**  
सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अन्तिम चरण है— **सूचनाओं का सम्प्रेषण**  
TGT 2010
- The money received by owner in business is known as— **Capital**  
व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कहलाता है— **पूँजी**  
TGT 2006
- What is the meaning of book keeping—  
**Recording in preliminary books**  
पुस्तपालन का क्या अर्थ होता है—  
**प्रारम्भिक पुस्तकों में लेखे करना**  
TGT 2006
- A seller gives his goods worth ₹ 2,000 to a buyer for ₹ 1800. The difference of ₹ 200 will be termed as—  
**Trade discount**  
एक विक्रेता अपने ₹ 2,000 के माल को ₹ 1,800 में क्रेता को देता है। ₹ 200 का यह अन्तर कहलाएगा—  
**व्यापारिक छूट**  
TGT 2006
- Purpose of taking responsibility— **Ownership**  
किसका उद्देश्य जिम्मा लेना है— **स्वामित्व**  
TGT 2004
- Main function of accounting—  
**Recording and classification of business transaction**  
लेखांकन का प्रमुख कार्य है—  
व्यवसायिक लेन-देनों का वर्गीकरण एवं अभिलेख  
TGT 2003
- Accounting Equation is—  
**Capital = Assets + Liabilities**  
लेखांकन समीकरण है— **पूँजी = संपत्ति - दायित्व**  
PGT 2013, U.P.P.C.S. (Pre.) 2009,  
TGT 2011, 2006, 2003  
HPPSC PGT 2016
- The head office of "The Institute of Cost and Works Accountants of India" is located at— **Kolkata**  
दी इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय स्थित है— **कोलकाता में**  
PGT 2010
- ..... is considered as the father of modern accounting system— **Lucas Pacioli**  
आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक माना जाता है—  
लूकास पैसिओली को  
PGT 2010
- Not a function of accounting—  
**Maximising the results & Profit maximization**  
लेखांकन का कार्य नहीं है—  
लाभ अधिकतमीकरण  
PGT 2004
- Accounting principles are based on—  
**Convenience in recording**  
लेखांकन के सिद्धान्त आधारित हैं—  
अभिलेखन में सुविधा पर
- Current Liability does not constitute—  
**Contingent liability**  
चालू-दायित्वों में सन्निहित नहीं होता— **सम्भाव्य दायित्व**  
U.P.P.C.S. (Pre.) 1996
- Prepaid insurance account is— **Asset account**  
पूर्वदत्त बीमा खाता है— **एक संपत्ति**  
U.P.P.C.S. (Pre.) 2002
- Personal Account is— **Pre-paid Salary Account, Drawings Account, Outstanding Rent Account**  
वैयक्तिक खाता है— **पूर्वदत्त वेतन खाता, आहरण खाता, अदत्त किराया खाता**  
U.P.P.C.S. (Pre.) 2003
- Goods withdrawn by the proprietor from business for his personal use will be credited to—  
**Purchases account**  
स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से माल निकालने पर क्रेडिट किया जाएगा— **क्रय खाता**  
U.P.P.C.S. (Pre.) 1998
- The first accounting standard issued by the Accounting Standard Board of India (ASBI) relates to— **Disclosure of Accounting Policies**  
भारतीय लेखांकन मानक परिषद (ASBI) द्वारा निर्गमित प्रथम लेखांकन मानक संबंधित है—  
लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से  
U.P.P.C.S. (Pre.) 1998, 2000
- The Chartered Accountants Act was enacted in the year— **1949**  
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स अधिनियम पारित हुआ था—  
वर्ष 1949 में  
U.P.P.C.S. (Pre.) 1999
- The Accounting Standard No. 2 of the International Accounting Standards Committee is on— **Valuation and presentation of inventories**  
अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति की लेखा मानक संख्या 2 का विषय है— **स्टॉक का मूल्यांकन और प्रस्तुतीकरण**  
U.P.P.C.S. (Pre.) 1999



- Accounting in modern age is regarded as—  
**The art of recording, classifying and summarising the business transactions in monetary units, the language of business, the source of business information**

आधुनिक युग में लेखांकन जाना जाता है—  
मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किए जाने वाले व्यवहारों के लेखन, वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण करने की कला के रूप में, व्यवसाय की भाषा के रूप में, व्यवसायिक सूचनाओं के स्रोत के रूप में  
U.P.P.C.S. (Pre.) 2000, 2005

- The user group of accounting information is—  
**Owners of the business, Managers of the business, Potential investors of the business**  
लेखा सूचनाओं का प्रयोग वाला समूह है—  
व्यवसाय के स्वामी, व्यवसाय के प्रबंधक, व्यवसाय के भावी विनियोजक  
U.P.P.C.S. (Pre.) 2002

- The International Accounting Standard-2 lays down guide lines for inventory valuation and presentation. Not true as per these standards—

**The basis and policy of valuation of inventory should not clearly be stated**  
अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक-2 में रहतिये के मूल्यांकन तथा प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं। इन मानकों के अनुसार सत्य नहीं है—  
रहतिये के मूल्यांकन का आधार व नीति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये  
U.P.P.C.S. (Pre.) 1996

- True statements is—  
**Every debit has a corresponding credit**  
सत्य कथन है—  
प्रत्येक विकलन (डेबिट) का समाकल (क्रेडिट) अवश्य होता है  
TGT, 2009  
U.P.P.C.S. (Pre.) 1996

- In the double entry system of book keeping a transaction affects—  
**Two accounts at the same time**  
पुस्तपालन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में एक सौदा प्रभावित करता है—  
दो खातों को एक ही समय में  
TGT, 2009  
U.P.P.C.S. (Pre.) 1996

- The accounting standard related to amalgamation of company is—  
**AS - 12**  
कम्पनी के एकीकरण से सम्बन्धित लेखांकन किया जाता है—  
**AS - 12**  
PGT 2011

- Net worth of a business means—  
**Total assets-total external liabilities**

एक व्यापार के शुद्ध मूल्य का अर्थ है—  
कुल सम्पत्ति — कुल बाह्य दायित्व  
U.P.P.C.S. (Pre.) 2004  
PGT 2009

- Accounting standard 8 is concerned with—  
**Accounting for research and development**  
लेखांकन मानक 8 का सम्बन्ध है—

शोधन एवं विकास हेतु लेखांकन से  
U.P.P.C.S. (Pre.) 2004

- Accounting Standard-3 is in respect of—  
**Cash Flow Statement**  
लेखांकन मानक-3 संबंधित है—  
रोकड़ प्रवाह विवरण से  
U.P.P.C.S. (Pre.) 2009

- The objectives of a business organization do not include—  
**Maximisation of total investment**  
एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है—  
सकल विनिवेश को अधिकतम करना  
U.P.P.C.S. (Pre.) 2006

- The Indian Accounting Standard 10 is related to—  
**Accounting for fixed Assets**  
भारतीय लेखांकन मानक-10 का सम्बन्ध है—  
स्थिर सम्पत्तियों के लेखांकन से  
U.P.P.C.S. (Pre.) 2006

- According to accounting standard-14 purchase consideration is payable to—  
**Shareholder**  
लेखांकन प्रमाप-14 के अनुसार क्रय प्रतिफल भुगतान होता है, जो देय है—  
अंशधारी को  
PGT 2002, 2006

- Accounting Standard-14 is—  
**Accounting for amalgamation**  
लेखांकन प्रमाप-14 है—  
सम्मिश्रण हेतु लेखांकन  
G.I.C. 2012

- Accounting Standard -6, relating to depreciation, is recommended for use by—  
**Companies listed on a recognized stock exchange**  
लेखांकन मानक-6, जो ह्रास से सम्बन्धित है, का प्रयोग संस्तुत किया गया है, निम्न के लिये—  
किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कम्पनियों के लिये  
U.P.P.C.S. (Pre.) 2006

- The main objective of Accountancy is to know about the—  
**Profit or Loss and Assets and Liabilities of the business**  
लेखांकन का मुख्य उद्देश्य निम्न की जानकारी से है—  
व्यापार के लाभ-हानि तथा संपत्तियों और दायित्वों को ज्ञात करना  
U.P.P.C.S. (Pre.) 2009

- Capital of Business is—  
**A Liability**  
व्यवसाय की पूंजी है—  
एक दायित्व  
U.P.P.C.S. (Pre.) 2009

## 2. सिद्धान्त, अवधारणाएँ एवं मान्यताएँ (Principles, Concepts and Assumptions)

- The basis of income Measurement is—  
आय के मापन का आधार है—  
**Matching concept**  
मिलान अवधारणा  
UP PGT 2021
  - "Losses are anticipated and profits are not accounted until realized", is the part of following principle—  
**Prudence & Conservatism**  
“हानि का आकलन करना और लाभ जब तक वसूल न हो जायें, उनको लेखाबद्ध न करना” जिस सिद्धान्त का हिस्सा है वह है—  
रूढ़िवादिता  
UP TGT 2021
  - Not an accounting convention—  
**Convention of accrual accounting**  
लेखांकन परिपाटी नहीं है—  
उपार्जन लेखांकन की परिपाटी  
UP TGT 2021
  - Prepaid rent is associated with—  
**Representative personal account**  
पूर्वदत्त किराया ..... से संबंधित है—  
प्रतिनिधिक व्यक्तिगत लेखा  
CGPSC Asst. Prof. 2014
  - Earned, but yet not received income is treated as—  
अर्जित किन्तु अप्राप्त आय मानी जाती है—  
**Assets**  
संपत्ति  
UP PGT 2016
  - Advanced money received from a customer for supply of goods in future is a—  
भविष्य में माल की आपूर्ति के लिये किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि है, एक—  
**Current Liability**  
चालू दायित्व  
UP PGT 2016
  - The practice of appending notes regarding contingent liabilities in accounting statements is in pursuant to—  
लेखांकन विवरणों में संयोगिक दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में है—  
**Convention of disclosure**  
प्रकटीकरण की परिपाटी  
UP PGT 2016  
UPPSC (Pre) 1996
  - The convention of conservatism is applicable in—  
**Making provision for bad and doubtful debts**  
रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है—  
अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋण के प्रावधान में  
UP PGT 2016
  - The 'going concern concept' is the underlying basis for—  
**Depreciating fixed assets over their useful life**
- ‘चालू व्यवसाय की अवधारणा’ का आधार है—  
स्थायी सम्पत्तियों के प्रयोज्य जीवन काल पर हास लगाने का  
UP PGT 2016
  - The system of recording transaction based on dual aspect concept is called—  
द्वि पहलू अवधारणा के आधार पर लेनदेन को अभिलेखित करने की प्रणाली को कहते हैं—  
**Double entry system**  
दोहरा लेखा प्रणाली  
UP PGT 2016, PGT 2009  
UP LT Grade 2018
  - According to the money measurement concept, recorded in the books of account of the business will be—  
मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाएगा—  
**Value of plant and machinery**  
संयन्त्र और मशीनरी का मूल्य  
UP PGT 2016
  - Not a clerical error—  
लिपिकीय त्रुटि नहीं है—  
**Error of principle**  
सिद्धान्त की त्रुटि  
UP TGT 2016
  - The Main objective of Book-keeping is to—  
**Keep correct and complete record of business transactions**  
पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है—  
व्यवसायिक लेनदेनों के सही एवं पूर्ण अभिलेख रखना  
UP TGT 2016
  - The primary function of the book-keeping is to—  
**Recording of financial data**  
पुस्तपालन का मुख्य कार्य है—  
वित्तीय समंकों का अभिलेखन करना  
UP TGT 2016
  - The accounting concept that is used to prepare the Profit and Loss Account is known as—  
लेखांकन की वह अवधारणा किसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है, कहलाती है—  
**Matching**  
मिलान  
UP TGT 2016
  - If closing stock is shown in Trial Balance, then it should be shown in—  
यदि अन्तिम रहतिया तलपट के अन्दर दिखाया गया हो, तो उसे दिखाया जायेगा—  
**Balance Sheet**  
आर्थिक चिट्ठे में  
UPPSC LT Grade 2018
  - Income is measured on the basis of—  
आय मापी जाती है—  
**Matching concept**  
अनुरूपता अवधारणा के आधार पर  
UPPSC LT Grade 2018
  - A trader transfers 20% of his profit to General Reserve. On the basis of which concept, he does so—  
एक व्यापारी अपने लाभ का 20% भाग सामान्य संचय में अन्तरित करता है। ऐसा वह किस अवधारणा के आधार पर करता है—  
**Concept of conservatism**  
रूढ़िवादिता की अवधारणा  
UPPSC LT Grade 2018

- AS-3 is related to— **Cash Flow Statement**  
लेखा मानक AS-3 सम्बन्धित है— **रोकड़ प्रवाह विवरण**  
**UKPSC Asst. Prof. (GDC) 2017**
- Accrual concept is related to— **Revenue & Incoms**  
उपार्जन अवधारणा सम्बन्धित है— **आगम**  
**HPPSC PGT 2016**
- When accounting standard board of India is constituted— **1977**  
भारत में लेखांकन मानक बोर्ड का गठन कब हुआ— **1977**  
**HPPSC PGT 2016**
- Trade discount is allowed for—  
**Purchasing products in bulk quantity**  
..... के लिए व्यापार छूट की अनुमति होती है—  
**बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदने**  
**CGPSC Asst. Prof. 2014**
- Preparation of consolidated Balance Sheet of Holding Company and its subsidiary company is done as per— **AS 21**  
सूत्रधारी कंपनी और इसकी आनुषंगिक कंपनी का समेकित आर्थिक चिह्न किसके अनुसार तैयार किया जाता है—  
**लेखांकन मानक 21**  
**UGC NET Exam (Paper III) Jan 2017**
- Interest on loan taken for the purchase of fixed assets is a— **Capital Expenditure**  
स्थायी सम्पत्ति को क्रय करने हेतु लिए गये ऋण पर ब्याज है—  
**पूँजीगत व्यय**  
**UGC NET Exam (Paper II) Dec 2015**
- Dual Aspect Concept results in the following accounting equation—  
**Capital + Liabilities = Assets**  
निम्नांकित समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा का परिणाम है—  
**पूँजी + दायित्व = सम्पत्तियाँ**  
**UGC NET Exam (Paper II) Dec 2015**
- When a business is purchased, any amount paid in excess of the total of assets, minus the liabilities taken, is called— **Goodwill**  
जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है तो लिए गये दायित्वों को घटाने के बाद बची कुल सम्पत्तियों के मूल्य से अधिक भुगतान की राशि को कहा जाता है—  
**ख्याति**  
**UGC NET Exam (Paper III) Dec 2015**
- What is the underlying concept that support the immediate recognition of an estimated loss— **Prudence**  
अनुमानित हानि की तत्काल पहचान का समर्थन करने वाली अंतर्निहित अवधारणा है—  
**विवेक**  
**UGC NET Exam (Paper III) June 2014**
- Responsibility accounting aims to—  
**Ensure that costs become the responsibility of a specific manager**  
उत्तरदायित्व लेखांकन का लक्ष्य—  
**यह सुनिश्चित करना कि लागतें विशिष्ट प्रबन्धक की जिम्मेदारी बन जाती है।**  
**UGC NET Exam (Paper III) June 2014**
- Window dressing is prohibited due to—  
**Convention of Disclosure**  
दिखावा पर प्रतिबन्ध का कारण है— **प्रकटीकरण अवधारणा**  
**UGC NET Exam (Paper II) Dec 2012**
- Owners equity stands for—  
**Total Assets minus Total outside Liabilities**  
मालिक की समता का अभिप्राय है—  
**कुल परिसम्पत्ति में से कुल बाहरी दायित्वों को घटाने पर शेष।**  
**UGC NET Exam (Paper III) Dec 2012**
- Correct statements is—  
**Increases in liabilities are credits and decreases are debits**  
सही कथन है—  
**दायित्वों में वृद्धि जमा है और कमियाँ उधार हैं।**  
**UGC NET Exam (Paper II) Dec 2011**
- According to which concept, it is necessary to disclose all the necessary information in financial statements—  
**Concept of full disclosure**  
किस अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों के द्वारा समस्त आवश्यक सूचनाओं का प्रकटीकरण आवश्यक है—  
**पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा**  
**TGT 2011**
- Not an accounting principle—  
**Principle of truthfulness**  
लेखाविधि का सिद्धान्त नहीं है—  
**सत्यता का सिद्धान्त**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 2004**  
**TGT 2006**
- According to which accounting concepts, the owner of the business is also considered a creditor to the extent of the capital—  
**Separate business entity concept**  
किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यापार का स्वामी भी अपनी पूँजी की सीमा तक लेनदार माना जाता है—  
**व्यवसायिक इकाई अवधारणा**  
**TGT 2003**
- The basis of generally accepted accounting principles are—  
**Assumptions**  
सामान्यतया स्वीकृत सिद्धान्तों का आधार है—  
**मान्यताएँ**  
**TGT 2002**
- The going concern concept assumes the continuance of a business to—  
**Infinite period**  
'चलित कारोबार' विचार के अन्तर्गत एक व्यवसाय के चालू रहने के बारे में मान्यता होती है—  
**अपरिमित अवधि**  
**TGT 2002**
- Capital account comes under which concept—  
**Separate entity concept**  
पूँजी खाता किस अवधारणा के अन्तर्गत आता है—  
**पृथक व्यवसाय**  
**PGT 2011**
- Capital employed is equal to—  
**Equity+ Long term debt**  
प्रयुक्त पूँजी =  
**समता, दीर्घकालीन ऋण**  
**PGT 2011**

- According to conservation concept, stock will be valued at—  
**Cost price or market price whichever is low**  
 रूढ़िवादिता के सिद्धान्त के अन्तर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किया जायेगा—  
**बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो भी कम है**  
**PGT 2013**
- All the possible losses should be anticipated in advance. This is in accordance with—  
**Prudence & Conservation concept**  
 व्यवसाय में सम्भावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही कर लेना चाहिये। ऐसी परम्परा है—  
**रूढ़िवादी**  
**PGT 2010**
- If a firm considers advance received from its clients as its income, then it violates concepts—  
**Realisation concept**  
 यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है, तो वह अवधारणा का उल्लंघन करती है—  
**वसूली अवधारणा**  
**PGT 2009**
- Assets of a business means—  
**Liabilities + Capital**  
 एक व्यवसाय की सम्पत्ति से आशय है—  
**दायित्व + पूँजी**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1995**  
**PGT 2003, 2006**
- Accounting equation is based on—  
**Dual aspect concept**  
 लेखांकन समीकरण आधारित है—  
**द्विपक्ष अवधारणा पर**  
**PGT 2004**
- The accounting concept where the business is a separate entity apart from its owners—  
**Business entity concept**  
 वह लेखांकन अवधारणा जहाँ व्यवसाय इसके स्वामी से अलग अस्तित्व रखता है—  
**व्यवसायिक अस्तित्व अवधारणा**  
**G.I.C. 2012**
- Accounting rules, procedures and methods should be observed alike and should not be changed from year to year. This is called accounting convention of—  
**Consistency**  
 लेखांकन नियम, प्रविधियाँ तथा पद्धतियाँ एक समान अपनाई जानी चाहिए और उन्हें वर्ष-प्रति-वर्ष बदलना नहीं चाहिए। इसे निम्नलिखित लेखांकन प्रथा कहते हैं—  
**सुसंगति**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1994**  
**TGT 2002**
- The need for showing contingent liability in the balance sheet arises out of the convention of—  
**Disclosure**  
 आर्थिक चिट्ठा में सांयोगिक दायित्व दर्शाने की आवश्यकता जिस परिपाटी के कारण पड़ती है, उसका नाम है—  
**प्रकटीकरण**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1994, 1995**
- The entity concept of Accounting is applicable to—  
**Sole Proprietary Concern, Partnership Firm, Joint Stock Company**  
 लेखांकन की स्वत्व अवधारणा लागू होती है—  
**एकल स्वामित्व वाली संस्था पर, साझेदारी फर्म पर, संयुक्त स्कन्ध प्रमण्डल पर**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1995**  
**PGT 2000**
- At what price the stock is valued under conventional method—  
**At cost price or market price whichever is lower**  
 परम्परागत रीति के अंतर्गत रहतिया का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है—  
**लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1995, 2001**
- The practice of valuation of inventory 'at cost or market price, whichever is lower' is an example of—  
**Conservatism Concept**  
 रहतिया का 'लागत अथवा बाजार मूल्य' दोनों में से जो कम हो' पर मूल्यांकन करने की प्रक्रिया एक उदाहरण है—  
**रूढ़िवादिता की अवधारणा की**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1996**
- Realization principle of accounting does not apply to—  
**Long-term construction contracts**  
 लेखांकन का वसूली सिद्धान्त लागू नहीं होता है—  
**दीर्घकालीन निर्माणी ठेका प्रसंविदाओं में**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1996**  
**PGT 2004**
- The principle 'anticipate no profit and provide for all possible losses' emanates from—  
**The conservatism concept**  
 'लाभों को प्रत्याशित न करो तथा सभी सम्भाव्य हानियों के लिए प्रावधान करो' के सिद्धान्त का उदय हुआ है—  
**रूढ़िवादिता की अवधारणा से**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1996**
- Fixed assets are reported in the Balance Sheet at historical cost basis. This is done in order to comply with the accounting principle of—  
**Going on concern principle**  
 स्थायी परिसम्पत्तियाँ आर्थिक चिट्ठे में ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शायी जाती हैं। ऐसा निम्नलिखित लेखांकन सिद्धान्त की अनुपूर्ति हेतु किया जाता है—  
**चालू व्यवसाय सिद्धान्त**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1997**
- The 'Accounting Convention of Matching' means—  
**Expenses of a period to be matched against the revenue of the same period**  
 'लेखांकन की तुलना परम्परा' का आशय होता है—  
**एक समय-अवधि के व्ययों की उसी अवधि के आगम से तुलना**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1997**

- According to the Money Measurement concept the following will be recorded in the books of Accounts—  
**Commission payable to salesman**  
मुद्रा मापन की अवधारणा के अनुसार लेखा पुस्तकों में निम्नलिखित का लेखा किया जायेगा—  
**विक्रय प्रतिनिधि को देय कमीशन**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1997, 2009, 2005**
- The convention of conservatism implies that—  
**Expected future losses must be provided for & recorded, Revenue must not be recognised unless it is accrued**  
रूढ़िवादिता की प्रथा का अभिप्राय है कि—  
**संभावित भावी हानियों की व्यवस्था अवश्य की जाए, जब तक उपार्जित न हो जाये आगम को मान्यता न दी जाए**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1997**
- Which is the convention of accounting, wherein there is no overvaluation of assets and incomes—  
**Conservatism**  
लेखांकन की ऐसी परिपाटी कौन सी है जिसके अंतर्गत परिसम्पत्तियों एवं आय का अतिमूल्यांकन नहीं होता—  
**रूढ़िवादिता**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1998**
- Revenue is generally recognised being earned at the time when—  
**Goods are delivered**  
सामान्यतः आय अर्जित मानी जाती है, उस समय जबकि—  
**माल की सुपुर्दगी कर दी जाती है**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1998**
- The principle that "an accountant should not anticipate profits, but must provide for all losses" is known as—  
**The conservatism concept**  
सिद्धान्त "लेखाकार को लाभों को प्रत्याशित नहीं करना चाहिये, किन्तु सभी हानियों के लिए प्रावधान अवश्य करना चाहिये" को कहते हैं—  
**रूढ़िवादिता की अवधारणा**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1999**
- Realisation principle of accounting does not apply to—  
**Long-term construction contracts**  
लेखांकन का वसूली का सिद्धान्त लागू नहीं होता—  
**दीर्घकालीन ठेका कार्यों में**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1999**  
**TGT 2002**
- The accounting concepts which help in ascertaining the profit/loss correctly are—  
**Realisation and Matching Concept**  
लाभ/हानि के सही निर्धारण में सहायता हेतु लेखांकन अवधारणाएं हैं—  
**वसूली तथा मिलान**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 2000**
- Realisation concept would apply when—  
**Goods are delivered to customer**  
वसूली अवधारणा लागू होती है जब—  
**माल ग्राहक को सुपुर्द कर दिया जाता है**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 2001**  
**PGT 2009**
- The application of the concept of conservatism in accounting—  
**Requires the accountant not to anticipate profits, but to provide for all possible losses**  
रूढ़िवादिता की अवधारणा का लेखांकन में प्रयोग—  
**लेखाकार से अपेक्षा करता है कि वह लाभों को प्रत्याशित न करे, किंतु सभी सम्भाव्य हानियों के लिए प्रावधान करे**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 2002**
- Accounting Standards in India are prescribed by—  
**Institute of Chartered Accountants of India**  
भारत में लेखांकन मानकों का निर्धारण इनके द्वारा होता है—  
**इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1999, 2001, 2002, 2005**
- Responsibility accounting seeks to establish a relationship between planning and controlling by—  
**Fixing organisational responsibilities for profit planning and controlling**  
उत्तरदायित्व लेखांकन आयोजन और नियंत्रण के बीच संबंध स्थापित करता है—  
**लाभ आयोजन तथा नियंत्रण के लिये संगठनात्मक उत्तरदायित्वों के निर्धारण के द्वारा**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 2002**
- Current assets are valued at—  
**Cost or market price whichever is lower**  
चालू संपत्तियों का मूल्यांकन निम्न आधार पर होता है—  
**लागत या बाजार मूल्य में से जो कम हो**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 2003**
- Capital is equal to—  
**Total assets – Total external liabilities**  
पूँजी बराबर होती है— **कुल सम्पत्ति – कुल बाह्य दायित्व**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 2003**
- Not an accounting convention—  
**Secrecy**  
लेखांकन प्रथा नहीं है— **गोपनीयता**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 2003**  
**TGT 2009**
- Contingent liability is shown due to—  
**Concept of full disclosure**  
सम्भाव्य दायित्व दिखाया जाता है—  
**पूर्ण प्रकटीकरण की विचारधारा के कारण**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 2004, 2008**
- While preparing accounting records 'Window Dressing' is prohibited due to—  
**Convention of disclosure**  
लेखा पुस्तकों को तैयार करते समय "खिड़की सज्जा" (विन्डो ड्रेसिंग) को निषिद्ध करने का कारण है—  
**प्रकटीकरण की परिपाटी**  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 2004**
- The accounting concepts related to Balance Sheet are—  
**Cost Concept, Accounting Equivalence Concept**



चिट्टे से सम्बन्धित लेखांकन अवधारणाएँ होती हैं-

लागत की अवधारणा,  
लेखांकन समतुल्यता की अवधारणा  
U.P.P.C.S. (Pre.) 2002, 2005

- Capital is considered as a business liability according to following concept of-

**Separate business entity**  
पूँजी को व्यवसाय का दायित्व माना जाता है निम्न विचारधारा के अनुसार-

पृथक व्यवसाय अस्तित्व की  
U.P.P.C.S. (Pre.) 2007

- Accounting Standard relating to Accounting Policies is-

लेखांकन नीतियों से सम्बन्धित लेखांकन मानक है-  
AS-1 AS-1  
U.P.P.C.S. (Pre.) 2007

- The cost of three small files (of Rs. 4 each) was charged to expenses when purchased even though they had useful life of several years. This was done according to the-

**Materiality principle**  
तीन छोटी फाइलों की लागत (प्रत्येक 4 रु. का) व्यय के रूप में चार्ज किया गया, यद्यपि उनका उपयोगी जीवनकाल कई वर्षों का था। ऐसा किया गया-

महत्वपूर्ण सिद्धान्त के अनुसार

U.P.P.C.S. (Pre.) 2008

- The Accounting Standards Board of India does not perform the following function-

**Propagate the Accounting Standards and persuade business houses to adopt them**  
भारतीय लेखांकन मानक परिषद निम्नांकित कार्य नहीं करता है-  
लेखांकन मानकों का प्रचार करना तथा व्यापारिक गृह को उन्हें अपनाने के लिये सहमत कराना

U.P.P.C.S. (Pre.) 2008

- The Accounting Standard No. 2 of the International Accounting Standards Committee is on the subject of-

**Valuation and presentation of inventories**  
अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति की लेखा मानक संख्या 2 का विषय है-  
रहतिये का मूल्यांकन तथा प्रस्तुतीकरण

U.P.P.C.S. (Pre.) 2005

- The convention of conservation will have the effect of-

**Understatements of assets**  
रूढ़िवादिता परम्परा का प्रभाव होगा-

संपत्तियों का अवमूल्यन

U.P.P.C.S. (Pre.) 2009, 2010

### 3. दोहरा लेखा प्रणाली (Double Entry System)

- Accounting equation, "Assets = Liabilities + Owners Equity", is represented through-

**Balance Sheet**  
लेखांकन समीकरण, "सम्पत्ति = दायित्व + स्वामित्व कोष", प्रदर्शित होता है-

आर्थिक चिट्टे द्वारा

UP TGT 2021

- According to the Double Entry System, salary paid to a clerk Ramesh is a-

**Nominal Transaction**

दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार एक लिपिक रमेश को भुगतान किया गया वेतन है-

नाममात्र का लेनदेन

UP TGT 2021

- The basic accounting equation is based on-

**Dual aspect concept**

मूल लेखांकन समीकरण आधारित है-

द्विपहलू अवधारणा पर

UP TGT 2021

- Purchase Book is used to record-

**All credit purchases of goods**

क्रय पुस्तक को क्या अभिलेखित करने के लिये प्रयोग किया जाता है-

माल के समस्त उधार क्रयों को

UP TGT 2021

- Drawings Account is-

आहरण खाता है-

व्यक्तिगत खाता

UP TGT 2021

- Ashoka Ltd. purchased a machine from Tata & Sons for Rs. 1,50,000. This is-

अशोका लि. ने एक मशीन टाटा एण्ड सन्स से रु. 1,50,000 में खरीदी। यह है-

एक लेनदेन

UP TGT 2021

- An asset was purchased for Rs. 5,00,000 with the down payment of Rs. 1,00,000 and bills adopted for Rs. 4,00,000. What would be the effect on the total asset and total liabilities in the Balance Sheet-

**Asset increased by 4,00,000 & liability increased by 4,00,000**

एक सम्पत्ति रु. 5,00,000 में खरीदी गई तथा रु. 1,00,000 का भुगतान सुपुर्दगी पर किया गया एवं रु. 4,00,000 के वित्त स्वीकार किए गये। आर्थिक चिट्टे में सम्पत्ति और दायित्व पर इसका प्रभाव होगा-

सम्पत्ति रु. 4,00,000 से बढ़ी तथा दायित्व

रु. 4,00,000 से बढ़े

UP TGT 2021

- Principle of 'double entry system'-

**Receiver is debit, Giver is credit**

'दोहरा लेख प्रणाली' का सिद्धान्त है-

प्राप्तकर्ता है नामे, प्रदाता है जमा

UP PGT 2016

- If Goods worth ₹ 10,000 are sold on the basis of sale on approval, the adjustment of this transaction on the date of accounting is done in-

**Sales, Stock, Debtors**

यदि ₹ 10,000 मूल्य का माल अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचा गया है तो लेखांकन की तिथि पर इसे लेनदेन का समायोजन किया जाता है-

विक्रय में, स्टॉक में, देनदारों में

UP PGT 2016

- Account will be debited if purchases of goods are made on credit—  
यदि कोई माल उधार क्रय किया गया है तो खाता नामे किया जायेगा—  
**Purchases**  
**क्रय**  
UP PGT 2016
- Cash withdrawn by the proprietor for his personal use should be debited to—  
प्रवर्तक द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नकद को डेबिट किया जाता है—  
**Drawings account**  
**आहरण खाते में**  
UP TGT 2016
- Personal selling includes—  
**Oral communication, Face to face interaction, Conversation with customers**  
व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित है—  
**मौखिक सम्प्रेषण, आमने सामने की बातचीत, ग्राहकों को बातचीत**
- Personal selling is not targeted towards—  
**Mass audiences**  
व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता है—  
**अधिसंख्य श्रोताओं पर**  
UP TGT 2016
- Accounting process does not include—  
लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है—  
**Simplifying सरलीकृत करना**  
UP TGT 2016
- Nominal accounts is—  
नाममात्र खाता है—  
**Interest A/c ब्याज खाता**  
UPPSC LT Grade 2018
- Making the provision for bad and doubtful debts in anticipation of actual bad debts is on the basis of—  
वास्तविक डूबी रकम के पूर्वानुमान में डूबी रकम और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान बनाने का आधार है—  
**Convention of conservatism**  
**रूढ़िवादिता की परम्परा**  
HPPSC PGT 2016
- Nominal A/c is—  
नाममात्र खाता है—  
**Wages A/c मजदूरी खाता**  
HPPSC PGT 2016
- Debit the receiver and credit the giver is rule of—  
डेबिट दी रिसीवर एण्ड क्रेडिट दी गिवर एक नियम है—  
**Personal A/c व्यक्तिगत खाता का**  
HPPSC PGT 2016
- GAAP required to—  
GAAP आवश्यक है—  
**Global harmonization in accounting लेखांकन में वैश्विक संयोजन**  
HPPSC PGT 2016
- Belongs to Nominal Account—  
नाममात्र खाते के अंतर्गत आता है—  
**Bad Debts Recovery A/C अशोध्य ऋण की वापसी**  
CGPSC Asst. Prof. 2016
- Debit: all Expenses and Losses  
Credit: all Gains or Income
- This formula is applicable for—  
**Nominal Accounts**  
डेबिट : सभी व्यय और हानियाँ  
क्रेडिट: सभी लाभ या आय  
यह सूत्र किसके लिए लागू होता है—  
**नॉमिनल खाते**  
CGPSC Asst. Prof. 2016
- “Make sufficient provisions for future losses, but do not anticipate future profits.” This statement is in accordance to the concept of—  
“भविष्य की हानियों के लिए पर्याप्त प्रावधान रखें लेकिन भविष्य के लाभों को पूर्वानुमान न करें।” यह कथन किस अवधारणा पर आधारित है—  
**Conservatism**  
**रूढ़िवादिता**  
UGC NET Exam (Paper II) Dec 2014
- Realisation account is a—  
वसूली खाता होता है—  
**Nominal account नाममात्र का खाता**  
TGT 2011
- Payment to creditors results in—  
**Decrease in total assets and total liabilities**  
लेनदारों को भुगतान का परिणाम होता है—  
**कुल दायित्वों तथा कुल सम्पत्तियों में कमी**  
TGT 2011
- The first person to publish principles of double entry system was—  
दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम बार प्रकाशित कराने वाला व्यक्ति था—  
**Lucas Pacioli लूकास पैसिओली**  
TGT 2011
- Not current asset—  
सम्पत्ति नहीं है—  
**Purchase क्रय**  
TGT 2011
- The asset account is debited from the original value of the asset in the books of buyer and ..... account is debited with the total amount of interest—  
क्रेता की पुस्तकों में सम्पत्ति की मूल कीमत से सम्पत्ति खाता डेबिट किया जाता है और कुल ब्याज की धनराशि से .... डेबिट किया जाता है—  
**Interest suspense account ब्याज संदेह खाता**  
TGT 2011
- Not a business activity—  
**A person earns Rs. 500 profit selling his old T.V.**  
व्यवसायिक क्रिया नहीं है—  
**एक व्यक्ति अपना पुराना टी.वी. बेचकर ₹ 500 लाभ कमाता है**  
TGT 2013
- Debit is equal to credit—  
डेबिट बराबर होता है, क्रेडिट के—  
**Always true in accounting लेखांकन में हमेशा सत्य**  
TGT 2013
- The basic principle of accounting "debit the receiver and credit the giver is applicable to—  
लेखांकन का मूल सिद्धांत पाने वाला डेबिट तथा देने वाला क्रेडिट लागू होता है—  
**Personal account व्यक्तिगत खाते में**  
TGT 2006, 2013



- 'Double entry system' refers to—  
**Every business transaction has two aspects**  
 'दोहरा लेखा प्रणाली' से आशय है—  
 प्रत्येक व्यापारिक लेन-देन के दो पक्ष होते हैं  
**TGT 2010**
- Posting of a transaction means – That transaction is—  
**Written on appropriate side of two accounts**  
 किसी लेन-देन की खतौनी का अर्थ है—उस लेन-देन को—  
 सम्बन्धित दो खातों के उचित पक्ष में लिखना  
**TGT 2006**
- According to double entry system, interest on bank loan is shown in—  
**Cash account**  
 बैंक ऋण पर ब्याज दोहरा खाता प्रणाली में कहाँ दिखाया जाता है—  
 रोकड़ खाते में  
**PGT 2010**
- The originator of the double entry system, Lucas Pacioli was resident of—  
**Italy**  
 दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के प्रवर्तक पैसिओली निवासी थे—  
 इटली के  
**PGT 2010**
- The nature of 'Commission' received in advance account is—  
**Personal account**  
 'कमीशन अग्रिम प्राप्त' की प्रकृति है—  
 व्यक्तिगत खाता  
**PGT 2004**
- Credit sales of business assets are recorded in—  
**Journal proper**  
 व्यवसायिक संपत्ति के उधार विक्रय का अभिलेखन होगा—  
 सामान्य रोजनामचा  
**PGT 2004**
- Not recorded in current assets—  
**Goodwill**  
 चालू सम्पत्तियाँ में शामिल नहीं किया जाता है—  
 ख्याति
- Double entry system keeps record of—  
**Personal account, Real account, Nominal account**  
 द्वि-प्रविष्टि प्रणाली विवरण रखती है—  
 व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नॉमिनल खाता
- Double Account system is applicable to—  
**Public utility concern**  
 दोहरा खाता प्रणाली प्रयुक्त होती है—  
 सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्था के लिए
- Double entry system was started in—  
**Italy**  
 दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारम्भ हुआ—  
 इटली में  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1996**  
**TGT 2011**
- Personal account is—  
**Outstanding salary**  
 व्यक्तिगत खाता है—  
 अदत्त वेतन  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1997**
- The most popular system of accounting used in public utility concerns is—  
**Double Account System**  
 जन उपयोगी संस्थानों में सबसे अधिक प्रचलित लेखांकन पद्धति है—  
 दोहरा खाता पद्धति  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1998**

- In case of a company, total assets less outside liabilities is called—  
**Net worth**  
 एक कम्पनी की दशा में कुल सम्पत्तियों में से बाह्य दायित्वों को घटाने के पश्चात जो शेष बचता है, उसे कहते हैं—  
 शुद्ध मूल्य  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 1999**
- Personal account is—  
**Drawings account, Bank account, Prepaid Rent account**  
 वैयक्तिक खाता है—  
 आहरण खाता, बैंक खाता, पूर्वदत्त किराया खाता  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 2007**
- Gross Profit is equal to—  
**Sales-Cost of goods sold**  
 सकल लाभ बराबर होता है—  
 विक्रय - बेचे गये माल की लागत  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 2007**
- Double Entry System was propounded by—  
**Lucas Pacioli**  
 दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया था—  
 लूकास पैसिओली ने  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 2008**
- Accounts do not record—  
**Number of Employees**  
 खातों में दर्ज नहीं होता—  
 कर्मचारियों की संख्या  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 2009**
- The only item that is not recorded in the books of account is—  
**Trade Discount**  
 लेखा पुस्तकों में न दर्ज किये जाने वाला एकमात्र मद है—  
 व्यापारिक छूट  
**U.P.P.C.S. (Pre.) 2009**

#### 4. जर्नल (Journal)

- In journal transactions are recorded on—  
**Chronological basis**  
 रोजनामचे में लेनेदेनों को अभिलेखित किया जाता है—  
 कालानुक्रमिक आधार पर  
**UP TGT 2021**
- In journal transactions are recorded on—  
**Daily basis**  
 रोजनामचे में लेनेदेनों को अभिलेखित किया जाता है—  
 दैनिक आधार पर  
**UP TGT 2021**
- When goods distributed as free samples and charity purpose, journal entry is—  
**Advertisement account Dr To purchase account**  
 जब माल को मुफ्त नमूनों के रूप में और परोपकार के लिए वितरित किया जाता है, तो प्रविष्टि है—  
 विज्ञापन लेखा जमा  
 क्रय लेखा जमा  
**CGPSC Asst. Prof. 2014**